



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-28.11.2022

चोरी की बाइक के साथ वांछित अभियुक्त मनीष सोनी थाना मण्डुवाडीह पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के पर्यवेक्षण में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-279/2022 धारा 379,419,420,411 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त मनीष सोनी पुत्र बीरेन्द्र सोनी निवासी ग्राम दोस्तपुर बाजार थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर हाल पता मण्डुवाडीह पुल के नीचे सब्जी मण्डी के पास (निर्मला का किराये का मकान) थाना मण्डुवाडीह वाराणसी को मुखबिर की सूचना पर लारी गेट के पास से आज दिनांक-28.11.2022 को समय 09.40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी 01 अदद मोटर साइकिल बरामद की गयी। उक्त के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-17.09.2022 को वादी श्री राम कुमार (एड0) ने श्रेयांश मेडिकेयर हास्पिटल थाना मण्डुवाडीह के सामने से अपनी मोटर साइकिल UP 65 BU 7261 स्पलेण्डर प्रो (काले रंग) चोरी हो जाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-279/2022 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 विजय प्रकाश यादव थाना मण्डुवाडीह कमि0 वाराणसी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-मनीष सोनी पुत्र बीरेन्द्र सोनी निवासी ग्राम दोस्तपुर बाजार थाना दोस्तपुर जनपद सुल्तानपुर हाल पता मण्डुवाडीह पुल के नीचे सब्जी मण्डी के पास (निर्मला का किराये का मकान) थाना मण्डुवाडीह वाराणसी, उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण- एक अदद मोटर साइकिल स्पेलेन्डर प्रो रजि0 नं0 UP 65 AB 7186 चेचिस नम्बर MBLHA 10 BFE HJ0490 इन्जन नं0 HA10EREHJ34917 बरामद।

विवरण पूछताछ-अभियुक्त मनीष सोनी ने पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल मैंने दिनांक-17/09/2022 को मण्डुवाडीह स्थित श्रेयांश अस्पताल के सामने से चुराया था, उस समय इस पर नम्बर प्लेट UP 65 BU 7261 लगा था, जिसका नम्बर प्लेट बदल कर मैंने दुसरा फर्जी नम्बर प्लेट UP 65AB 7186 लगाया और आज मैं इसे बेचने हेतु ग्राहक की तलाश में वाराणसी शहर ले जाने वाला था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1-उ0नि0 विजय प्रकाश यादव चौकी प्रभारी कस्बा मण्डुवाडीह थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2-उ0नि0 शुभेन्द्रु दिक्षित (क्राइम टीम प्रभारी) थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3-का0 सूर्यभान सिंह (क्राइम टीम) थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4-का0 मोहित मीणा (क्राइम टीम) थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 5-का0 अशोक कुमार यादव थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

